



आष्टा

विकास योजना (प्रारूप)




संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश,

आषट्ठा

विकास योजना (प्रारूप)

2021

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
के
प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

प्रस्तावना

आष्टा नगर, भोपाल से देवास को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 पर राजधानी भोपाल से 81 किलोमीटर दूर, पार्वती नदी के तट पर बसा है । यह नगर जिला सीहोर का तहसील मुख्यालय है ।

नगर आबादी पार्वती नदी के तटीय क्षेत्र पर पूर्व एवं दक्षिण दिशा में बसी है । आष्टा नगर का संलग्न ग्रामीण प्रक्षेत्र कृषि उत्पाद में अग्रणी है । अतः नगर कृषि आधारित व्यापारिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है । कृषि उपज मंडी, प्रक्षेत्र की एक प्रमुख मंडी है । भोपाल तथा इंदौर के मध्य स्थित होने एवं तहसील स्तर का प्रशासकीय केन्द्र होने से विकास की संभावनायें अधिक हैं । आष्टा नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यंत सघन एवं सकीर्ण मार्गों के कारण आंतरिक बस्ती क्षेत्र यातायात के लिये समस्याग्रस्त है । भावी जनसंख्या वृद्धि एवं नगर का राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने से नगर के विकास की सुनियोजित दिशा का निर्धारण आवश्यक है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये नगर की प्रारूप विकास योजना तैयार की गई है ।

विकास योजना में वर्ष 2021 की प्रक्षेपित 88000 जनसंख्या के आधार पर आवासीय, वाणिज्यिक, सेवा-सुविधाओं के भूमि उपयोग प्रस्ताव दिये गये हैं जिसमें अधोसंरचना, मार्ग तंत्र, यातायात नगर, मंडी इत्यादि की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है । स्वच्छ पर्यावरण नगरवासियों को प्राप्त हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है । नगर की वर्तमान एवं भावी कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करते हुये संतुलित नगरीय विकास की अवधारणा के आधार पर प्रारूप योजना तैयार की गई है ।

प्रारूप योजना प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के प्रावधानान्तर्गत गठित समिति से परिचर्चा कर स्वीकार्य मानकों के अनुरूप सुझावों को यथासंभव समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया है ।

आष्टा नगर की प्रारूप विकास योजना नगर के सुनियोजित विकास हेतु जनसामान्य से सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । आशा है कि नागरिकगण अपने व्यावहारिक एवं सृजनशील सुझाव प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसे जन आंकाक्षा के अनुरूप अंतिम रूप देकर प्रभावशील किया जा सके ।


(एस.एन.मिश्रा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
मध्य प्रदेश, भोपाल.

योजना दल

अपर संचालक

पी. एन. मिश्रा

संयुक्त संचालक

बी. एन. त्रिपाठी

एस. एस. राठौर

विजय सावलकर

सहायक संचालक

सुप्रिया पेंडके

नजमा नवी

योजना दल से संबद्ध कर्मचारीगण

हिमांशु जोशी
पी. डी. सक्सेना
एस. पी. कुशवाह
बी. पी. दोगने
सतीश शाक्य
एम. एल. नेमा
मनोज गहोदिया
भूषण कुलकर्णी
फहीम सुल्तान

लीलम्मा सी
इन्दू त्रिपाठी
नसीम ईनाम
पी. एस. बातव
अरुण वराडपांडे
एस. ए. हुसैन
जे. के. शील
जयन्त जोशी
राशिदा नईम

समय-समय पर योजना दल से संबद्ध कर्मचारीगण

अजय अग्रवाल
अरविंद सक्सेना

ज्योति कुलकर्णी

एस. के. निम्बालकर